

नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(अक्टूबर 2017)

खाली भूमि व सडक पर कचरा फेककर गंदगी फैलाने से बाज नही आ रहे लोग

शहर मे डोर डोर कचरा प्रबंधन के अलावा नगर निगम द्वारा हर रोज शहर के विभिन्न मार्गों पर पसरे कचरे के ढेर को हटाने का काम किया जा रहा है किन्तु कुछ इलाको के नागरिक व व्यवसायी सडक नाली व खाली पडे स्थानो पर कचरा फैलाने से बाज नही आ रहे है हर रोज शहर के गली गलियारो मे निगम की टीम नही पहुंच पाती इस कारण कई दिनों तक कचरे को ढेर पडा रहता है शहर के कुछ स्थानो तो कचरे के ढेर के लिए चर्चित हो गए है इन दिनों निगम के द्वारा सडक पर कचरा तो कचरे के ढेर के लिए चर्चित हो गए है इन दिनों निगम के द्वारा सडक कचरा फेकने पर जुर्माने की वसुली हो रही बावजूद इसके नगर के पंचशील अलंकार होटल गली के व्यवसायी खाली पडे स्थानो पर हर रोज कचरे का ढेर जमा कर रहे है जहा मंवशी भी जमे रहते है गौरतलब है कि स्वच्छता के लिए अंबिकापुर शहर को कई राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके है दो लाख की आबादी मे यह स्वच्छता मे नंबर वन भी बन चुका है पर इस शहर की स्वच्छता पर पानी फेरने आमादा है हर रोज व्यावसायिक प्रतिष्ठानो और घर घर कचरा प्रबंधन कार्य मे लगी महिलाएं पहुंच रही और सुखा गीला कचरा लोगो से ले रही है

एसएलआरएम सेंटर मे मशीन से होगा कम्पोस्ट खाद का निर्माण

शहर के एसएलआरएम सेंटर मे अब गीला कचरा को सडाकर खाद बनाने के बजाये कम्पोस्टिंग मशीन से कम समय मे अधिक खाद निर्माण किया जायेगा एसएलआरएम सेंटर मे खाद निर्माण के लिए शासन द्वारा 15 लाख रूपये की लगातार से कम्पोस्टिंग मशीन उपलब्ध कराया गया है बताया जा रहा है कि बोनस तिहार कार्यक्रम स्थल पर स्वच्छता सहकारी समिति द्वारा लगाये गये कम्पोस्ट खाद के सटाल को लोगो का बेहतर प्रतिसाद देखनेक को मिला और स्टाल मे रखे गये सारे खाद हाथो हाथ बिक गये शहर मे डोर टु डोर कचरा का उठान करने वाली एसएलआरएम सेंटर की सदस्या कचरे को आय का जरिया बना चुकी है गिला सुखा कचरा

अलग अलग कर गिला कचरा का कम्पोस्ट खाद बना रही है वही सुखे रिसाईक्लिंग योग्य सुखे कचरे की सफाई कर ब्रिकी कर रही है बताया जा रहा कि शहर के एसएलआरएम सेटर से प्रतिमाह 5 लाख 70 हजार रूपये कचरा की ब्रिकी की जा रही है

नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर

सम्पर्क हेतु नंबर –

निदान 1100 –

सफाई, पानी, सड़क बत्ती, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, संबंधित शिकायत दर्ज करवाने संपर्क करे.

कार्यालय का पता – नगर पालिक निगम प्रशासनिक भवन, केदारपुर पानी टंकी
अम्बिकापुर (छ.ग.)